

A/c No./खाते क्र./खाता नं.: Date/दिनांक/तारीख :

Product Name: Savings / Current / Over Draft / Cash Credit / Term Deposits (FD / SD / RD / DRC / SDS / RDL) Accounts. • **खात्याचे नाव:** बचत / चालू / ओवर ड्राफ्ट / कॅश क्रेडिट / मुदत ठेवी (एफडी/एसडी/आरडी/डीआरसी/एसडीएस/आरडीएल) खाती. • **खाते का नाम:** बचत/चालू/ओवर ड्राफ्ट/नकद क्रेडिट/सावधि जमा (एफडी/एसडी/आरडी/डीआरसी/एसडीएस/आरडीएल) खाता।

Please open a _____ a/c as per details given below. I/we, agree to comply with and be bound by the Bank's rules for the time being in force or any changes that may be made therein from time to time. • कृपया खाली दिलेल्या तपशिलानुसार _____ खाते उघडण्यात यावे. मी/आम्ही, बँकेच्या सध्या अंमलात असलेल्या नियमांचे किंवा त्यामध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या बदलांचे पालन करण्यास सहमत आणि बांधील आहोत. • कृपया नीचे दिले गेलेले विवरण के अनुसार _____ खाता खोलें। मैं/हम, बैंक के मौजूदा नियमों या समय-समय पर किए जाने वाले किसी भी बदलाव का पालन करने और उससे बंधे रहने के लिए सहमत हैं।

Please fill details in BLOCK letters & sign with BLACK Ink. • कृपया मोठ्या लिपीत माहिती भरा आणि काळ्या शाईने स्वाक्षरी करा./कृपया विवरण बडे अक्षरों में भरें और काले स्याही से हस्ताक्षर करें।

Title / Name of the Account holder/शीर्षक खातेदाराचे नाव / शीर्षक/खातादारक का नाम: CIF No./सी.आय.एफ. नं./सी.आय.एफ. नं.:

Mr./Mrs./Miss/Master/M/s. /श्री/ श्रीमती/कुमार/कुमारी/मेसर्स / श्रीमान/श्रीमती/कुमार/कुमारी/मेसर्स

First Name/प्रथम नाव/पहिला नाम Middle Name/मधले नाव/मध्य नाम Surname/ आडनाव/उपनाम Signature/सही/हस्ताक्षर

Institute Name/संस्थेचे नाव/संस्था का नाम

1st Joint Holder - Individual/Guardian/Proprietor/Partner/Director/Karta/Trustee etc.: • प्रथम संयुक्त खाते धारक - व्यक्ति/पालक/मालक/भागीदार/संचालक/कर्ता/विश्वस्त इत्यादी

प्रथम संयुक्त धारक - व्यक्तिगत/अभिभावक/मालिक/साझेदार/निदेशक/कर्ता/ट्रस्टी आदि: CIF No./सी.आय.एफ. नं./सी.आय.एफ. नं.:

Mr./Mrs./Miss/Master/M/s. /श्री/ श्रीमती/कुमार/कुमारी/मेसर्स / श्रीमान/श्रीमती/कुमार/कुमारी/मेसर्स

First Name/प्रथम नाव/पहिला नाम Middle Name/मधले नाव/मध्य नाम Surname/ आडनाव/उपनाम Signature/सही/हस्ताक्षर

2nd Joint Holder - Individual/Guardian/Partner/Director/Trustee/Mandate/POA Holder: • द्वितीय संयुक्त खाते धारक - व्यक्ति/पालक/भागीदार/संचालक/विश्वस्त/आदेशधाराक/मुखत्यारपत्र धारक :

दूसरा संयुक्त धारक - व्यक्तिगत/अभिभावक/साझेदार/निदेशक/ट्रस्टी/जनादेश/मुख्तारनामा धारक: CIF No./सी.आय.एफ. नं./सी.आय.एफ. नं.:

Mr./Mrs./Miss/Master/M/s. /श्री/ श्रीमती/कुमार/कुमारी/मेसर्स / श्रीमान/श्रीमती/कुमार/कुमारी/मेसर्स

First Name/प्रथम नाव/पहिला नाम Middle Name/मधले नाव/मध्य नाम Surname/ आडनाव/उपनाम Signature/सही/हस्ताक्षर

3rd Joint Holder - Individual/Partner/Director/Trustee/Mandate/POA Holder: • तृतीय संयुक्त खाते धारक - व्यक्ति/भागीदार/संचालक/विश्वस्त/आदेशधाराक/मुखत्यारपत्र धारक :

तिसरा संयुक्त धारक - व्यक्तिगत/साझेदार/निदेशक/ट्रस्टी/जनादेश/मुख्तारनामा धारक: CIF No./सी.आय.एफ. नं./सी.आय.एफ. नं.:

Mr./Mrs./Miss/Master/M/s. /श्री/ श्रीमती/कुमार/कुमारी/मेसर्स / श्रीमान/श्रीमती/कुमार/कुमारी/मेसर्स

First Name/प्रथम नाव/पहिला नाम Middle Name/मधले नाव/मध्य नाम Surname/ आडनाव/उपनाम Signature/सही/हस्ताक्षर

Operation of account/खात्याचे व्यवहार/खाता का व्यवहार Singly/स्वतः/स्वयं E/S/दोहोंपैकी एक/जीवित व्यक्ती/दोनों में से एक/जिवित व्यक्ती Former/Survivor/पहिला/जीवित व्यक्ती/पहला/जिवित व्यक्ती

Jointly/Survivor/एकत्रित/जीवित व्यक्ती/संयुक्त/जिवित व्यक्ती Anyone of us/Survivor/आमच्यापैकी कोणीही एक/जीवित व्यक्ती/हम में से कोई एक/जिवित व्यक्ती By Guardian/पालक/पालक

Copy of resolution passed by the BOARD OF DIRECTORS/संचालक मंडळ/संचालक मंडल Other/इतर/अन्य

ठरावाची प्रत/संकल्प की कापी MANAGING COMMITTEE/व्यवस्थापन समिती/प्रबंध समिति

For Savings/Current account only/फक्त बचत/चालू खात्यांसाठी/केवल बचत/चालू खाते के लिए

I/We deposit initial amount of Rs./मी/आम्ही प्रारंभिक रुपये भरणा करीत आहे/आहोत/मैं/हम प्रारंभिक राशि रुपये जमा करते हैं। ₹

For Term Deposits only/फक्त मुदत ठेवी खात्यांसाठी/केवल सावधि जमा खाते के लिए

FD/SD/RD/DRC/SDS/RDL/मुदत ठेव/अल्प मुदत ठेव/आवर्ती ठेव/डीआरसी/एसडीएस/आरडीएल/सावधि जमा/सुरक्षा जमा/आवर्ती जमा/डीआरसी/एसडीएस/आरडीएल

Amount/रक्कम/रकम: Period/कालावधी/काल: Month/Days/Year/महिना/दिवस/वर्ष/महीना/दिन/साल

in cash/by cheque/debit to OD/SB/CA No./रोख/धनादेश/ओडी/बचत/चालू खात्याचा डेबिट क्रमांक/नकद/धनादेश/ओडी/बचत/चालू खाता डेबिट संख्या

with/बरोबर/सह Branch/शाखा/शाखा

Interest to be paid: Monthly/Quarterly/Maturity/व्याज देय - मासिक/त्रैमासिक/मुदत अंती/मासिक/त्रैमासिक/परिपक्वता तिथी

• Account details for crediting Interest or debiting RD Installment: व्याज जमा करण्यासाठी किंवा आवर्ती ठेवीचे हप्ते वळते करण्यासाठी खात्याचा तपशील/

व्याज जमा करने या आरडी किस्त डेबिट करने के लिए खाता विवरण -

Branch Name/शाखेचे नाव/शाखा का नाम Account No./खाते क्र./खाता नं.:

• On maturity proceeds to be credited to: मुदत अंती देय रक्कम जमा करण्याबाबत/देय तिथी पर राशि जमा करने हेतू।

Branch Name/शाखेचे नाव/शाखा का नाम Account No./खाते क्र./खाता नं.:

Auto Renewal/स्वयं नूतनीकरण/स्वयं अवधि का नवीकरण - YES/होय/हाँ NO/नाही/नहीं

For Office use / कार्यालयीन उपयोगाकरिता / कार्यालय उपयोग के लिए

Risk Classification and Fixing of Threshold Limit/धोक्याचे वर्गीकरण आणि मर्यादा निश्चिती/जोखिम वर्गीकरण और निर्धारण या प्रारंभिक सीमा

1) Potential activity expected in the Account (Monthly/Annual turnover) Rs.

खात्यात अपेक्षित संभाव्य क्रियाकलाप (महिना/वार्षिक उलाढाल) रुपये /खाते में अपेक्षित संभावित गतिविधि (मासिक/सालाना कारोबार) रुपये

2) Source(s) of funds/निधीचे स्रोत/धन का स्रोत

3) Annual Income Rs./वार्षिक उत्पन्न रु./वार्षिक आय रु. The threshold limit is fixed at Rs./निश्चित मर्यादा रु./निश्चित सीमा रु.

4) Risk Classification/धोक्याचे वर्गीकरण/जोखिम का वर्गीकरण - Low/कमी/कम Medium/मध्यम/मध्यम High/उच्च/उच्च

Reasons for risk classification made/धोक्याचे वर्गीकरण केल्याची कारणे/जोखिम का वर्गीकरण का कारण -

Signature of the Official/अधिकार्याची सही/अधिकारी के हस्ताक्षर

Date/दिनांक/तारीख

Signature of the Manager/व्यवस्थापकाची सही/प्रबंधक के हस्ताक्षर

Date/दिनांक/तारीख

DECLARATION OF NOMINATION - NOMINATION FORM DA 1/नामांकनाची घोषणा - नामांकन फॉर्म डीए १/नामांकन की घोषणा - नामांकन फॉर्म डीए १

☐ Would like to Nominate/नामनिर्देशन करू इच्छितो/नामांकन करना चाहेंगे

☐ Don't want to Nominate/नामनिर्देशन करू इच्छित नाही/नामांकन नहीं करना चाहेंगे

I/We have understood the benefits of the nomination, however I/We do not wish to nominate/मी/आम्ही नामनिर्देशनाचे फायदे समजून घेतले आहेत, तरीही मी/आम्ही नामनिर्देशन करू इच्छित नाही/मैं/हमने नामांकन के लाभों के बारे में समझ लिया है, हालाँकि मैं/हम नामांकन नहीं करना चाहते हैं।

Nomination under Sec. 45 ZA read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2(1) of the Co-operative Banks (Nomination) Rule 1985, in respect of Bank deposits./बँकींग नियमन कायदा १९४९ चे

कलम ४५ झेडए सह कलम ५६ आणि सहकारी बँका (नामांकन) नियमावली १९८५ च्या बँक ठेवीसंबंधीचा नियम २(१) अंतर्गत. / धारा 45 जेडए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 और बैंक जमा से संबंधित सहकारी बैंक

(पंजीकरण) नियम 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत.

I/We Name(s) & Address(es)

Nominate the following person to whom in the event of my/our/minor's death the amount of deposit in the account particulars whereof are given below, may be returned by SHRI ARIHANT

CO-OPERATIVE BANK LTD. Branch. / माझा/आमचा/अल्पवयीन चा मृत्यू झाल्यास खात्यावरील ठेवीची रक्कम, श्री अरिहंत को-ऑप. बँक लि. च्या

शाखा यांनी खाली नमूद केलेल्या वारसास देण्यासाठी मी/आम्ही

(नांव व पत्ता) यांचे नामांकन करीत आहोत. /मेरे/हमारे/नाबालिग की मृत्यु की स्थिति में नीचे दिए गए खाते के विवरण में जमा राशि,

श्री अरिहंत सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखा से, निम्नलिखित व्यक्ति को वापस करने हेतू मैं/हम

(नाम और पता) को नामांकित करते हैं।

